

वर्ष 2019-2020 हेतु उपतहसील कार्यालय कुला जिला फतेहाबाद से संबंधित कलेक्टर रेट की सूचि

क्र.स.	क्षेत्र से संबंधित विवरण	भूमि का प्रकार	रेट		
			वर्तमान रेट 2019-20	प्रस्तावित रेट 2019-20	प्रतिशत बढोतरी /कटौती
1	लहरियां				
		व्यवसायिक	1800 (प्रति वर्गगज)	1800 (प्रति वर्गगज)	0
		गेर- मूमकिन	1200 (प्रति वर्गगज)	1200 (प्रति वर्गगज)	0
		कृषि भूमि (नहरी / चाही)	1200000 (प्रति एकड)	1200000 (प्रति एकड)	0
		बरानी /टिब्बा	1100000 (प्रति एकड)	1100000 (प्रति एकड)	0
		सडक के दोनो तरफ दो दो एकड तक नम्बर खसरा:- 1//15-16-25 2//8-9-11-12-13-18-19-20-21-22-23 12//1-2-3-8-9-10-11-12-13-18-19-20-21-22-23 13//5-6-15-16-25, 14//5-6-15-16-25 15//1-2-3-8-9-10-11-12-13-18-19-20-21-22-23 34//2-3-8-9-10-11-12-13-18-19-20-21-22-23 35//5-6-15-16-25, 36//5-16-25 37//1-2-3-8-9-10-11-12-19-20-21-22 58//1-2-3-8-9-10-11-12-13-19-20-21-22 59//5-6-15-16-25, 60//5-6-15-16-24-25 61//1-10-11-20-21, 82//20-21 83//4-5-6-7-14-15-16-17-24-25 84//3-4-5-6-7-8-13-14-15-16-23-24-25 85//1-10-11-20 109//2-3-4-5-6-7-8-9-12-13-14-16-17-18-19-22-23-24 110//1-2-3-4-7-8-9-13-14-18-23	1800000 (प्रति एकड)	1800000 (प्रति एकड)	0
2	टिब्बी	आयासीय	1800 (प्रति वर्गगज)	1800 (प्रति वर्गगज)	0
		गेर- मूमकिन	1200 (प्रति वर्गगज)	1200 (प्रति वर्गगज)	0
		कृषि भूमि (नहरी / चाही)	1200000 (प्रति एकड)	1200000 (प्रति एकड)	0
		बरानी /टिब्बा	1100000 (प्रति एकड)	1100000 (प्रति एकड)	0

	सडक के दोनो तरफ दो दो एकड तक नम्बर खसरा:- 27//3-8-9-12-13-14-16-17-18-19-22-23-24-25 31//1-2-3-4-7-8-9-10-11-12-13-14-17-18-19-20-21-22 23 46//5-6-15-16-25, 47//1-2-3-8-9-10-11-12-13-18 -19-20-21-22, 51//1-2-9-10-11-12-19-20-21 52//4-5-6-7-14-15-16-17-24-25 67//3-4-5-6-7-8-13-14-15-16-17-18-23-24-25 68//1-10-11, 69//2-3-4-8-9	1700000 (प्रति एकड)	1700000 (प्रति एकड)	0
3 खेड़ी रहन	व्यवसायिक	1800 (प्रति वर्गगज)	1800 (प्रति वर्गगज)	0
	गेर- मूमकिन	1200 (प्रति वर्गगज)	1200 (प्रति वर्गगज)	0
	कृषि भूमि (नहरी / चाही)	1200000 (प्रति एकड)	1200000 (प्रति एकड)	0
	बरानी /टिब्बा	1100000 (प्रति एकड)	1100000 (प्रति एकड)	0
4 कानीखेड़ी	व्यवसायिक	1800 (प्रति वर्गगज)	1800 (प्रति वर्गगज)	0
	गेर- मूमकिन	1200 (प्रति वर्गगज)	1200 (प्रति वर्गगज)	0
	कृषि भूमि (नहरी / चाही)	1200000 (प्रति एकड)	1200000 (प्रति एकड)	0
	बरानी /टिब्बा	1100000 (प्रति एकड)	1100000 (प्रति एकड)	0
	सडक के दोनो तरफ दो दो एकड तक नम्बर खसरा:- 13//11-12-19-20-21-22-23 15//1-2-3-8-9-10-11-12-13-18-19-20-21-22-23 16//5-6-14-15-16-17-24-25 21//4-5-6-7-14-15-16-17-18-23-24-25 22//1-2-9-10-11-12-19-20-21-22 25//1-10-11-20 26//3-4-5-6-7-8-13-14-15-16-17-18-23-24-25 28//3-4-5-6-7-15	1700000 (प्रति एकड)	1700000 (प्रति एकड)	0
5 ढेर	व्यवसायिक	2300 (प्रति वर्गगज)	2300 (प्रति वर्गगज)	0
	गेर- मूमकिन	1400 (प्रति वर्गगज)	1400 (प्रति वर्गगज)	0
	कृषि भूमि (नहरी / चाही)	1315000 (प्रति एकड)	1315000 (प्रति एकड)	0
	बरानी /टिब्बा	1315000 (प्रति एकड)	1315000 (प्रति एकड)	0

		सडक के दोनो तरफ दो दो एकड तक नम्बर खसरा:- 1//25 2//12-18-19-20-21-22-23-24 4//1-2-3-8-9-10-11-12-20 5//4-5-6-7-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-25 16//6-14-15-16-17-23-24-25 17//1-2-3-4-7-8-9-10-11-12-13-18-19-20-21-22 25//1 26//2-3-4-5-6-7-8-9-11-12-13-14-15-17-18-19-20 -21-22-23 27//25 37//4-5-6-7-8-13-14-15-16-17-18-19-22-23-24-25 38//1-2-3-8-9-10-11-12 51//1-2-3-4-7-8-9-10-11-12-13-19-20-21 52//5-6-14-15-16-17-23-24-25 55//1	1700000 (प्रति एकड)	1700000 (प्रति एकड)	0
6	दीवाना	व्यवसायिक	2300 (प्रति वर्गगज)	2300 (प्रति वर्गगज)	0
		गेर- मूमकिन	1400 (प्रति वर्गगज)	1400 (प्रति वर्गगज)	0
		कृषि भूमि (नहरी / चाही)	1315000 (प्रति एकड)	1315000 (प्रति एकड)	0
		सडक के दोनो तरफ दो दो एकड तक नम्बर खसरा:- 18//16-24-25 19//2-3-8-9-10-11-12-13-14-17-18-19 -20-21-22-23 22//1-2-9-10-11 23//3-4-5-6-7-8-12-13-14-15-16-17-18 -19-20-21-22-23-24-25 35//5-6-7-14-15-16-17-18-22-23-24-25 36//1-2-3-4-8-9-10-11-12-13-19-20-21/1 43//1-2 44//3-4-6-7-8-9-10-11/1-19-20-21-22 45//15-16-17-24-25 52//1-2-10-11-20 57//3-4-5-6-7-8-12-13-14-15-16-17-18-19 -20/1-21-22-23-24-25 61//1-2-3-4-5-7-8-9-10-11-12-13-14-18 -19-20-21-22-23 62//6-15-16-17-24-25 64//3-4-5-6-7-8-15-16-25 65//1-2-9-10-11	2250000 (प्रति एकड)	2250000 (प्रति एकड)	0
7	कानाखेड़ा	व्यवसायिक	2300 (प्रति वर्गगज)	2300 (प्रति वर्गगज)	0
		गेर- मूमकिन	1400 (प्रति वर्गगज)	1400 (प्रति वर्गगज)	0
		कृषि भूमि (नहरी / चाही)	1320000 (प्रति एकड)	1320000 (प्रति एकड)	0
8	करणडी	व्यवसायिक	2300	2300	0
		गेर- मूमकिन	1400	1400	0
		कृषि भूमि (नहरी / चाही)	1315000 (प्रति एकड)	1315000 (प्रति एकड)	0
		बरानी /टिब्बा	1315000 (प्रति एकड)	1315000 (प्रति एकड)	0

9	कुलां	व्यवसायिक कुला चौक के चारों तरफ नाखत रोड, भुव रोड, संज्ञान रोड, रविना रोड- 14//11-12/1-12/2-16-17-18-19/1-20-21/1-21/2-22/2- 23, 22//1-10/1-10/2-11/1-11/2-12/1-12/2-18-19/1-19/2-20- 21/1-21/2-22/2-22/2 31//1-10-11-20/1-20/2-21/1-21/2	14500 (प्रति वर्गगज)	14500 (प्रति वर्गगज)	0
		गेर- मूमकिन	1500 (प्रति वर्गगज)	1500 (प्रति वर्गगज)	0
		कृषि भूमि (नहरी / चाही)	1320000 (प्रति एकड़)	1320000 (प्रति एकड़)	0
		सड़क के दोनों तरफ दो दो एकड़ तक नम्बर खसरा:- 4//20-21, 5//1-2-3-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17- -18-19-21-22-23-24/1-24/2-25 6//25, 7//1-2-3-8-9-10-11-12-13-18-19-20-21-22-23 8//5-6-15-16-25, 13//5-6-15-16-25 14//1-2-3-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/1-19/2- -20-21-22/1-22/2-23 15//3-4-5-6/1-6/2-7-8-9-10-11-12-13/1-13/2-14- -15-16-17-18/1-18/2 16//1-2/1-2/2-3-4-5-7-8-9-10-11-12 17//1, 22//1-2-10/1-10/2-11-12-18-19-20-21-22 23//3/2-4/2-5-6/1-6/2-7-8-9-10-11-12-13/1-13/2- -14-15-16-17-18-19/1-19/2-20/1 -20/2-21-22-25, 24//14-15/1-15/2-16/1-16/2-17-18/1-18/2- -19-21-22-23/1-23/2-24/1-24/2-25 25//25, 27//14-15-16-17/1-17/2-18/1-18/2-23-24/1-24/2-25 28//3-4-5-6/1-6/2-7-8-9-10-11-12-13/1-13/2-14- -15-16-17-18-19-20/1-20/2-21-22-23, 29//1-2-3-4/1-4/2-5-8-9/1-9/2-10-11-12 30//1-5-6-15/2-16/1-25, 31//1-10-11-20-21 1-2-3-8-9-10-11-12-13-18-19-20-21-22-23 45//5-6-15-16-25, 47//1, 48//4-5-7 52//5-6-15-16-25, 53//1-2-3-8-9-10-11-12-13-18-19-20- -21-22-23, 71//1-2-3-8-9-10-11-12-13-18-19- -20-21-22-23, 72//5-6-15-16-25, 78//5-6-15-16-25 79//1-2-3-8-9-10-11-12-13-18-19-20-21-22-23 101//1-2-3-8-9-10-11-12-13-18-19 -20-21-22-23, 102//5-6-15-16-25, 107//5-6-15-16-25 108//1-2-3-8-9-10-11-12-13-18-19-20-21-22-23 129//1-2-3-10, 130//5-6	2800000 (प्रति एकड़)	2800000 (प्रति एकड़)	0
10	जायतेवाला	व्यवसायिक	1800	1800	0
		गेर- मूमकिन	1200	1200	0
		कृषि भूमि (नहरी / चाही)	1200000 (प्रति एकड़)	1200000 (प्रति एकड़)	0

Joint Sub Registrar
Kulana (F.D.)
Sub Registrar Kulana

Sub Divisional Officer (C) Tohana

Collector, Fatehabad

		सडक के दोनो तरफ दो दो एकड तक नम्बर खसरा:- 19//7-8-13-14-15-16-17-18-19-23-24-25 20//11-18-19-20-21-22-23-24-25 24//25 25//21-22 26//1-2-3-8-9-11 27//3-4-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20- 21-22 28//14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25 29//11-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25 30//1/1-1/2-7-9-10/1-10/2-11-12-13-14-15-16-17-18- 19-20-23-24-25 31//1-2-3-4-5-6/1-6/2-7-8-9-14-15 32//5 37//5 38//1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 39//1-2-3-4-5-8-9-10	1600000 (प्रति एकड)	1600000 (प्रति एकड)	0
11	नन्हेंडी	व्यवसायिक	1800 (प्रति वर्गगज)	1800 (प्रति वर्गगज)	0
		गेर- मूमकिन	1200 (प्रति वर्गगज)	1200 (प्रति वर्गगज)	0
		कृषि भूमि (नहरी / चाही)	1200000	1200000	0
		सडक पर 2 एकड तक नम्बर खसरा:- 23//11-12-17-18-19-20/1-22/1-22/2-23/1-23/2-24- 25/1-25/2 35//11-12-19-20-21-22/1-22/2-23-24-25 36//1-2-3-6-7-8-9/1-9/2-10/1-10/2-1-12-13/1-13/2-14- 15 -16/1-16/2-17-18-19-20/1-20/2-23-24-25/1-25/2, 37//2-3-4/1-4/2-5-6-7-8-9-14-15, 39//5 40//1-2-3-4/1-4/2-5-6/1-6/2-7/1-7/2-8/1-8/2-9-14-15/1- 15/2 41//1/1-1/2-7-8-9-10/1-10/2-11-12-13/2-14-15/1-15/2 -16/1-16/2-17-18-19-20-22-23-24-25 42//1/1-11/2-18/1-18/2-19-20-21-22/1-22/2-23-24/2- 25/2 45//1-2-3-9-10/1-10/2-11-12-20 46//5/2	1800000	1800000	0
12	मधेड़ा	व्यवसायिक	1800 (प्रति वर्गगज)	1800 (प्रति वर्गगज)	0
		गेर- मूमकिन	1200 (प्रति वर्गगज)	1200 (प्रति वर्गगज)	0
		कृषि भूमि (नहरी / चाही)	1200000 (प्रति एकड)	1200000 (प्रति एकड)	0
13	रसूलपुर	व्यवसायिक	1800 (प्रति वर्गगज)	1800 (प्रति वर्गगज)	0
		गेर- मूमकिन	1200 (प्रति वर्गगज)	1200 (प्रति वर्गगज)	0
		कृषि भूमि (नहरी / चाही)	1200000 (प्रति एकड)	1200000 (प्रति एकड)	0
14	धारसूल खर्द	व्यवसायिक	1800 (प्रति वर्गगज)	1800 (प्रति वर्गगज)	0

		गेर- मूमकिन	1200 (प्रति वर्गगज)	1200 (प्रति वर्गगज)	0
		कृषि भूमि (नहरी / चाही)	1200000 (प्रति एकड)	1200000 (प्रति एकड)	0
		सडक के दोनो तरफ दो दो एकड तक नम्बर खसरा:- 54//18-22-23, 55//1-2-3-8-9-10-11-12-19-20-21-22 56//16, 71//1	2000000 (प्रति एकड)	2000000 (प्रति एकड)	0
15	रूपवाली	व्यवसायिक	1800 (प्रति वर्गगज)	1800 (प्रति वर्गगज)	0
		गेर- मूमकिन	1200 (प्रति वर्गगज)	1200 (प्रति वर्गगज)	0
		कृषि भूमि (नहरी / चाही)	1200000 (प्रति एकड)	1200000 (प्रति एकड)	0
		बरानी /टिब्बा	1200000	1200000	0
16	रत्ताथंढ	व्यवसायिक	1800 (प्रति वर्गगज)	1800 (प्रति वर्गगज)	0
		गेर- मूमकिन	1200 (प्रति वर्गगज)	1200 (प्रति वर्गगज)	0
		कृषि भूमि (नहरी / चाही)	1200000 (प्रति एकड)	1200000 (प्रति एकड)	0
17	गुलरवाला	व्यवसायिक	2300 (प्रति वर्गगज)	2300 (प्रति वर्गगज)	0
		गेर- मूमकिन	1400 (प्रति वर्गगज)	1400 (प्रति वर्गगज)	0
		कृषि भूमि (नहरी / चाही)	1320000 (प्रति एकड)	1320000 (प्रति एकड)	0
18	मुसाखेड़ा	व्यवसायिक	2300 (प्रति वर्गगज)	2300 (प्रति वर्गगज)	0
		गेर- मूमकिन	1400 (प्रति वर्गगज)	1400 (प्रति वर्गगज)	0
		कृषि भूमि (नहरी / चाही)	1320000 (प्रति एकड)	1320000 (प्रति एकड)	0
19	इन्दाछोई	व्यवसायिक	1800 (प्रति वर्गगज)	1800 (प्रति वर्गगज)	0
		गेर- मूमकिन	1200 (प्रति वर्गगज)	1200 (प्रति वर्गगज)	0
		कृषि भूमि (नहरी / चाही)	1100000 (प्रति एकड)	1100000 (प्रति एकड)	0
		बरानी /टिब्बा	1100000 (प्रति एकड)	1100000 (प्रति एकड)	0

		सडक के दोनो तरफ दो दो एकड तक नम्बर खसरा:- 186//15-16-17-22-23-24-25 188//8-9-10-11-12-13-19-20-21-22 189//6-15-16-17-24-25 196//4-5-6-7-8-13-14-15-16-17-18-24-25 197//1-10-11	1600000 (प्रति एकड)	1600000 (प्रति एकड)	0
20	अकावाली	व्यवसायिक	2800 (प्रति वर्गगज)	2800 (प्रति वर्गगज)	0
		गेर- मूमकिन	1500 (प्रति वर्गगज)	1500 (प्रति वर्गगज)	0
		कृषि भूमि (नहरी / चाही)	1200000 (प्रति एकड)	1200000 (प्रति एकड)	0
		सडक के दोनो तरफ दो दो एकड तक नम्बर खसरा:- 7//25, 22//16-17-21-22-23-24-25/1-25/2 23//6-7-11-12-13-14-15-16-17/1-17/2-18-19/1-19/2-20-21/1 -21/2/1-21/2/2-22-23-24-25, 24//4, 25//10-11 28//1/1-1/2-2/2-3, 29//1-2-3/1-3/2-4-5-6-7-8-9-10-11-12/1 -12/2-13, 30//3/1-3/2-4-5-6-7-8/1-8/2-9-10-11-12-13/1-13/2 -14-15-16-17-18-19-20-21-22-23, 31//6-13-14/1-14/2-15/1- 15/2 -16/1/1-16/1/2-16/1/3-16/2-17/1/1-17/1/2-17/2-18-19-20-21- 22-23/1 -23/2-24-25, 32//23-24-25/1-25/2, 41//23/1/1/1-23/1/1/2- 23/1/2-23/2-24 42//16/1-16/2-16/3-17-22-23-24-25, 43//1-2/1-2/2-3/1-3/2-4- 5-6/1/1 -6/1/2-7-8-9/1/1-9/1/2-9/2-10-11/1-11/2-12-13/1-13/2-14-15- 18-19/1 -19/2-20-21/2-21/2, 44//1/1-1/2-2-3-4-5-8-9-10/1/1-10/1/2, 57//1-2/1-2/2-9/1-9/2-10/1-10/2-11/1, 58//1-2-3/1-3/2-4-5-6- 7-8-9-10-11-12/1-12/2-12/3-13-14/1-14/2-19-20, 59//5-6- 7/1-7/2-8-11-12/1-12/2-13-14-15/1-15/2-16-17-18-19-20-21- 22-23/1-23/2-24-25, 60//16/1-16/2-17/1-17/2-18-21/1-21/2- 22-23/1-23/2-24/1/1-24/1/2-24/2-25/1-25/2, 63//14-15-16- 25, 64//4-5-6-7-8-9/1-11-12-13-14/1-14/2-15-16-17-18-19- 20-21-22/1-22/2-23-24, 65//1-2/1-2/2-3/1/1-3/1/2-3/2-4-5-6/1 87//1-2	2230000 (प्रति एकड)	2230000 (प्रति एकड)	0
21	भोडी	व्यवसायिक	1800	1800	0
		गेर- मूमकिन	1200	1200	0
		कृषि भूमि (नहरी / चाही)	1100000 (प्रति एकड)	1100000 (प्रति एकड)	0
22	धारसूल कलां	व्यवसायिक	8500	8500	0
		गेर- मूमकिन	1200	1200	0
		कृषि भूमि (नहरी / चाही)	1200000 (प्रति एकड)	1200000 (प्रति एकड)	0

		सड़क के दोनो तरफ दो दो एकड तक नम्बर खसरा:- 2//8-13-14/1-17/1-17/3-24/3, 9//25 10//4-5-7-13/2-14-18-23 13//1/1-1/3-2-3-9-10/1-11/2-12-19/1-19/2-20-21 14//4-5-6-7-14-15/1-16/1-16/3-17-18-23-24/1-25/2 31//3/1-3/2-4-5/2-6-7/1-7/3-8-9-12-13/1-14/2-15-16- 17/1 -17/2-18-19/2-20/1-20/2-21-22-23-24, 32//1/1-1/2 35//1-2-3/1-3/2-9-10-11-12, 50//5-6/1-15-16-25 51//1-2-3-4-7-8-9/1-9/2-10-11-12/1-17-21-22/1-22/2 -23/1-23/2-24, 56//1-2/1-2/2-3-4/1-7-8-9/1-9/2-10-11- 12/1 -12/2-13-14-17-18-19/1-19/2-20-21-22/1-22/2/1- 22/2/2-23 57//5/1-5/2-6-15/1-15/2-16-25	2000000 (प्रति एकड)	2000000 (प्रति एकड)	0
23	पोखरी	व्यवसायिक	1800 (प्रति वर्गगज)	1800 (प्रति वर्गगज)	0
		गेर- मूमकिन	1200 (प्रति वर्गगज)	1200 (प्रति वर्गगज)	0
		कृषि भूमि (नहरी / चाही)	1200000 (प्रति एकड)	1200000 (प्रति एकड)	0
		बरानी /टिब्बा	1074000 (प्रति एकड)	1074000 (प्रति एकड)	0
		सड़क के दोनो तरफ दो दो एकड तक नम्बर खसरा:- 1//23-24-25, 8//1-2-3-4-5-8-9-10 9//5-6-7-14-15,10//16-17/1-17/2-18-23 -24-25/1-25/2, 11//11-12-13/1-13/2-14 -15/1-15/2-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25 28//1-2-3 29//2-3-4-5-6-7-8-9-10/1-10/2-11-12-13 30//16	1700000 (प्रति एकड)	1700000 (प्रति एकड)	0
24	माईमढ	व्यवसायिक	1800	1800	0
		गेर- मूमकिन	1200	1200	0
		कृषि भूमि (नहरी / चाही)	1200000 (प्रति एकड)	1200000 (प्रति एकड)	0
		सड़क के दोनो तरफ दो दो एकड तक नम्बर खसरा:- 18//1/1-1/2-2-3-4-8-9/1-9/2-10-11/1-11/2 -12-13/1-13/2-19-20-21, 19//6/1-6/2-7-12-13-14-15/1 -15/2-16/1-16/2-17/1-17/2-18-19-20-21-22-23-24-25 20//16-17/1-17/2-23/1-23/2-24-25 28//5-6-7-8, 29//1-2/1-2/2-3-4-5-6/1-6/2-7-8-9/1-9/2-10-11- 12 30//1-2-3-4-9-10, 31//1, 32//5-6-7-8-9-10-11-12/1-12/2-13- 14/1-14/2-15-17-18/1-18/2-19-20/1-20/2-22-23, 34//2-3	1600000 (प्रति एकड)	1600000 (प्रति एकड)	0

25	सलेमपुरी	व्यवसायिक	1800 (प्रति वर्गगज)	1800 (प्रति वर्गगज)	0
		गेर- भूमकिन	1200 (प्रति वर्गगज)	1200 (प्रति वर्गगज)	0
		कृषि भूमि (नहरी / चाही)	1074000 (प्रति एकड)	1074000 (प्रति एकड)	0
		बरानी / टिब्बा	1200000 (प्रति एकड)	1200000 (प्रति एकड)	0
		सडक के दोनो तरफ दो दो एकड तक नम्बर खसरा:- 39//25 40//17-18-19-21-22-23-24/1-25 41//1 42//1-2/1-3-4-5-7-8-9-10-11-12-13 43//3-4-5-6-7-8-9/1-9/2-10-11-12-13-14-15-16-17-18- 19-20-21-22-23 44//13-14-15-16-17-18/1-19/1-19/2-22/1-22/2	1600000 (प्रति एकड)	1600000 (प्रति एकड)	0

नोट:-

1. यदि क्रेता द्वारा तय की गई भूमि 1000 वर्गगज से कम है तो क्रेता एक से अधिक हो चाहे वे आपस में सगे भाई हो क्यों ना हो उनके द्वारा क्रय की गई एक के हिस्से की भूमि का क्षेत्रफल 1000 वर्ग गज से कम हो तो उसका प्रयोग आवासीय माना जाए तथा उस क्षेत्र के पास की कालोनी/गैर मूमकिन की आवासीय दर लगाई जाए।
2. यदि कच्चा कम से कम 12 वर्ष पुराना बतौर गैर मौरुसी है और कोई मलकियत खरीदे तो कलेक्टर रेट का एक तिहाई स्टाम्प लगेगा।
कच्चा कम से कम 30 वर्ष से अधिक बतौर गैर मौरुसी है तो कलेक्टर रेट का एक चौथाई स्टाम्प लगेगा। खसरा गिरदावरी साथ सलग्न करे।
3. विक्रेता रजिस्ट्री के समय प्लान/मकान/दुकान का मौका अनुसार नक्शा तथा शपथ पत्र भी साथ लगाएगा।
4. अवैध कालोनिया अनियमित क्षेत्र में आती है जिनमें निर्माण करना अवैध होगा और इसमें जिला योजनाकार से अनारपित प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है।

(A. Class)	वर्तमान रेट	प्रस्तावित रेट
R.C.C. Roofing, Teraazo Flooring, Marbles Flooring, Brick in Cement Morter, Joinery in Hard Wood and other super quality including E.I. Conduct & Sewer Connection	2018-2019	2019-2020
	Per Sq. Ft.	Per Sq. Ft.
1.) Ground Floor	1000	1000
1.) First Floor	800	800
(B. Class)		
Brick Roofing Mudor, Cement Modter Conglomerate Flooring, Joinery in Hard Wood and equieient E.I. Sewer Connection		
1.) Ground Floor	750	750
1.) First Floor	650	650
(C. Class)		
Batten Roofing with Tite Tracing, Brick Work in mud motor, brick Flooring without sewer Connection		
1.) Ground Floor	550	550
1.) First Floor	450	450

5. 1 वर्ष से 15 वर्ष तक का निर्माण ए श्रेणी में आएगा
16वर्ष से 25 वर्ष तक का निर्माण बी श्रेणी में आएगा
25 वर्ष से ऊपर का निर्माण सी श्रेणी में आएगा।
6. वसोकाजात पंजीकृत करते समय क्रेता का नाम, पिता का नाम, मकान नम्बर, गली नम्बर, वार्ड नम्बर सहित पूरा पता लिखे तथा आधार नम्बर, पैन नम्बर, मोबाईल नम्बर रजिस्टर में लिखे व मौका के प्लान का नक्शा/मकान की फोटो साथ सलग्न करके रजिस्ट्री पंजीकृत की जाए।

Joint Sub Registrar
Kulwan (F.T.O.)

Sub Division Officer (C)
Tohana

Collector, Fatehabad